

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया में सांस्कृतिक उत्सव 'सहर: टूवर्ड्स ए न्यू डॉन' का आयोजन

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के समाज कार्य विभाग, का सांस्कृतिक उत्सव 'सहर', 2022, 28 से 30 नवंबर, 2022 तक आयोजित किया गया। सहर अपने नाम के अनुरूप एक नई सुबह की भावना और ऊर्जा के साथ 2 साल के अंतराल के बाद मनाया जा रहा है। 500 से अधिक छात्रों की भागीदारी से तीन दिनों के उत्सव में खेल, शिक्षा और कला से जुड़े 14 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

छात्र सलाहकार डॉ. रश्मि जैन के मार्गदर्शन में विभाग की सब्जेक्ट एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम के आयोजन का बीड़ा उठाया, जिसकी तैयारी महीनों पहले से ही शुरू कर दी गई ताकि अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

पहले दिन समाज कार्य विभाग के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए खेलकूद और उसके बाद गली क्रिकेट, बैडमिंटन और खो-खो का आयोजन हुआ। छात्रों, फैकल्टी और नॉन टीचिंग स्टाफ में भी उत्साह साफ देखा गया। दूसरे दिन एक ओपन-माइक सत्र के अलावा 'संवाद', भाषण, एड-मैड, पॉलिसीथॉन, क्विज़, और नुक्कड़ नाटक जैसे शैक्षणिक कार्यक्रम हुए, जहाँ दर्शकों का विश्वविद्यालय के गायकों की मधुर आवाज़ों से परिचय कराया गया। फोटोग्राफी, स्लैम पोएट्री, पोस्टर मेकिंग और रैप बैटल तीसरे दिन के कार्यक्रम थे, जिसका समापन एक संगीतमय संध्या के साथ हुआ।

समाज कार्य विभाग के सभी संकाय सदस्य विभिन्न आयोजनों के लिए जज बनने के लिए सहमत हुए। विभाग के सभी पाठ्यक्रमों (एमए सोशल वर्क, एमए मानव संसाधन प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य में उन्नत डिप्लोमा और पीएचडी) के छात्रों ने प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेने के साथ-साथ कार्यक्रमों के आयोजन में अथक परिश्रम किया। छात्रों ने उत्सव के लिए विभाग को सजाने, और सभी प्रतिभागियों के लिए दस्तकारी रिसाइकिल करने योग्य सजावट के साथ स्वागत करने का एक असाधारण काम किया।

विभाग के लॉन और गलियारे छात्रों की खुशी, रोमांच और उल्लास से गूंज रहे थे। एक बार फिर से इकट्ठा होना और एक साथ उत्सव का आनंद लेना, विशेष रूप से COVID ने इस पैमाने पर अकल्पनीय बना दिया था। लेकिन सभी आयोजकों, प्रतिभागियों और दर्शकों के आशावादी नजरिये और ऊर्जा ने कोविड में हमें एक नया तालमेल बनाने के लिए 'न्यू नॉर्मल' की रह दिखाई।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया